



CRASH COURSE



REASONING

IBPS RRB PO / CLERK PRE 2023

**BASED ON PREVIOUS
YEAR QUESTIONS**

पिछली परीक्षा में पूछे गये प्रश्नों के आधार पर

BY REASONING GURU



LIVE

09:00 AM

PREVIOUS YEAR PAPER

1. In the following questions a statement is followed by two conclusions. Choose the appropriate option.

निम्नलिखित प्रश्नों में एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं।
उपयुक्त विकल्प चुनें।

Statement: कथन:

$A > B, D > E, C = D, E > F, B \geq C$

Conclusions: निष्कर्ष:

I. $B \geq E$

II. $B > F$

(1) If only Conclusion I is true.

(2) If only Conclusion II is true.

(3) If either Conclusion I or II is true.

(4) If neither Conclusion I nor II is true.

(5) If both Conclusions I and II are true.

PREVIOUS YEAR

PAPER

2 .Each of the questions are given certain statements with two conclusions. You need to decide which conclusion follows the question statements from the answer choices.
प्रत्येक प्रश्न में दो निष्कर्षों के साथ कुछ कथन दिए गए हैं। आपको यह तय करने की आवश्यकता है कि कौन सा निष्कर्ष उत्तर विकल्पों में से प्रश्न कथनों का अनुसरण करता है।

Statements: कथन:

$$A > J \leq P > R; B \leq K = Q \geq S; P = K > M$$

Conclusions: निष्कर्ष:

I. $S = J$

II. $S < J$

conclusion 1 follows

(1) Only

conclusion 2 follows

(2) Only

PREVIOUS YEAR

3. Statements/**कथ**
PAPER:

All tea are coffee. / सभी चाय कॉफी हैं।

Some coffee are cold –drinks./ कुछ कॉफी कोल्ड-ड्रिंक हैं।

All cold –drinks are thumsup ./ सभी कोल्ड-ड्रिंक थम्सअप हैं।

Conclusions:/निष्कर्ष:

I .All coffee are tea ./ सभी कॉफी चाय हैं।

II.Cold –drinks can be thumps ./ कोल्ड-ड्रिंकस थम्प्स हो सकते हैं।

III.At least some thumsup are cold drinks./कम से कम कुछ थम्सअप कोल्ड ड्रिंक हैं।

(1) If only conclusion I , II
and III follow.

(2) If only conclusion I

PREVIOUS YEAR PAPER

4. Statement:/ कथन:

Only a few scripts are words./ केवल कुछ स्क्रिप्ट शब्द हैं।

No letter is a word./ कोई अक्षर शब्द नहीं है।

Conclusion: निष्कर्ष:

I. A few letters are scripts./ कुछ अक्षर स्क्रिप्ट हैं।

II. All scripts can be words is a possibility./ सभी स्क्रिप्ट के शब्द होने की संभावना है।

(1)

Only I follows

(2)

Only II follows

(3)

PREVIOUS YEAR PAPER

Directions : There are eight members in a family. For every member of the family has either both or none of the parents were alive. N is the father of S and is married to T. U is the sister of K. J is the granddaughter of T. R is married to U's son. P is the only brother of J.

निर्देश : एक परिवार में आठ सदस्य हैं। परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए या तो दोनों या माता-पिता में से कोई भी जीवित नहीं था। N, S का पिता है और T से विवाहित है। U, K की बहन है। J, T की

PREVIOUS YEAR PAPER

Q.5 How is P related to T?

P, T से किस प्रकार संबंधित है?

1. Daughter
2. Grandson
3. Son-in-law
4. Nephew
5. Cannot be determined

Q.6. How is U related to P?

U, P से किस प्रकार संबंधित है?

1. Mother-in-law
2. Mother
3. Aunt
4. Sister-in-law
5. Cannot be determined

Q.7 How is K related to J?

K, J से किस प्रकार संबंधित है?

1. Aunt
2. Uncle
3. Father-in-law
4. Sister-in-law
5. Cannot be determined

PREVIOUS YEAR PAPER

Directions : Eight people P, Q, R, S, T, U, V and W lived in an eight floored apartment numbered from 1-8 (8 being the topmost floor). It is known that Three people lived between S and W where S lived above W. Q was on the 3rd floor. U lived above T. R who doesn't live on the topmost floor, lives immediately above V who lived on an odd floor. P lived on the bottom most floor.

निर्देश : आठ लोग P, Q, R, S, T, U, V और W एक आठ मंजिल वाले अपार्टमेंट में रहते हैं, जिनकी संख्या 1-8 (8 सबसे ऊपरी मंजिल है) से है। यह ज्ञात है कि तीन लोग S और W के बीच रहते थे जहां S, W के ऊपर रहता था। Q तीसरी मंजिल पर था। U, T के ऊपर रहता है। R को सबसे ऊपरी मंजिल पर

PREVIOUS YEAR PAPER

Q.8 On which floor did T live?

T किस मंजिल पर रहता था?

1. 2nd 2. 4th 3. 5th 4. 6th 5.

Either C or D

Q.9 How many people lived between U and W?

U और W के बीच कितने लोग रहते थे?

1. 1 2. 0 3. 2 4. 4
5. 3

Q.10 Who among the following lived adjacent to W ?

निम्नलिखित में से कौन W के निकट रहता था?

PREVIOUS YEAR PAPER

Q. 11 If in 98637548, each odd digit is decreased by two and each even digit is decreased by three, then how many such pairs of digits are there in the number thus formed, which have as many digits in the number as they have between them in the descending and ascending order?

यदि 98637548 में, प्रत्येक विषम अंक को दो से घटा दिया जाता है और प्रत्येक सम अंक को तीन से घटा दिया जाता है, तो इस प्रकार बनी संख्या में अंकों के ऐसे कितने जोड़े हैं, जिनके बीच में जितने अंक हैं उतने ही अंक हैं।

अवरोही और आरोही क्रम में?

(IBPS PO

2019)

1. More than six

PREVIOUS YEAR

PAPER

Directions : Nine boxes were kept one above the other in the form of stack. They contain different fruits. No two boxes contain the same fruit.

Two fruits were kept between Apple and Orange. Mango was kept immediately above Apple. Four fruits were kept between Mango and Grapes where former is kept above the latter. Only one fruit was kept between grapes and guava. Guava was kept below Orange. Banana is kept immediately below Cherry. Blueberry was kept above Guava but below Papaya.

निर्देश : नौ बक्सों को एक के ऊपर एक ढेर के रूप में रखा गया था। इनमें अलग-अलग फल होते हैं। किन्हीं दो बक्सों में समान फल नहीं हैं। सेब और अंगूर के बीच में दो फल रखे गए थे। अंगूर को सेब के ठीक ऊपर रखा गया

PREVIOUS YEAR PAPER

Directions : Nine boxes were kept one above the other in the form of stack. They contain different fruits. No two boxes contain the same fruit.

Two fruits were kept between Apple and Orange. Mango was kept immediately above Apple. Four fruits were kept between Mango and Grapes where former is kept above the latter. Only one fruit was kept between grapes and

PREVIOUS YEAR

PAPER

12 How many fruits were kept between Papaya and Orange?

पपीता और संतरे के बीच कितने फल रखे गए थे?

- (1) 2 (2) 5 (3) 7 (4) 3
(5) 4

13. Which fruit was kept immediately above Guava?

कौन सा फल अमरूद के ठीक ऊपर रखा गया था

- (1) Orange (2) Banana (3) Blueberry
(4) Papaya (5) Cannot be determined

14 .How many fruits were kept above Cherry?

